

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)

विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	ए.बी. बैंक #		ए.बी.एन. एम्रो बैंक		अबु-धाबी कमर्शियल बैंक		अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक #	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 नकदी-जमा अनुपात	4.08	4.48	10.08	11.31	6.95	10.42	6.49	
2 ऋण-जमा अनुपात	134.73	84.24	114.93	107.77	42.94	39.19	59.80	
3 निवेश-जमा अनुपात	37.39	36.66	40.05	62.28	30.3	39.09	73.53	
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	172.12	120.89	154.98	170.05	73.24	78.28	133.33	
5 जमाशायियों का कुल देयताओं से अनुपात	34.53	39.11	56.1	51.65	59.74	71.71	65.88	
6 सावधि जमाशायियों का कुल जमाशायियों से अनुपात	19.78	9.57	62.28	60.29	70.51	60.81	69.96	
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	28.21	31.11	32.63	36.55	10.04	13.07	6.07	
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	40.99	62.76	51.15	50.81	19.52	16.46	38.57	
9 प्रतिभूत (सिक्के) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	29.74	21.51	65.1	41.76	99.87	97.11	17.65	
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	15.73	12.83	0.16	1.59	2.35	2.45	51.08	
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	6.52	5.93	8.39	9.33	6.29	9.45	7.51	
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	5.75	5.35	4.41	4.85	1.94	5.56	3.18	
13 व्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	6.98	5.92	3.31	1.98	2.08	4.27	9.86	
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	6.00	3.98	3.73	4.01	2.55	3.9	8.82	
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	19.08	24.24	34.47	42.16	27.67	21.79	40.31	
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	16.93	21.18	16.65	19.92	10.22	10.9	27.03	
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	8.48	8.15	10.98	14.97	8.42	6.19	20.47	
18 भार (बर्दन) का कुल आस्तियों से अनुपात	-0.98	-1.94	0.42	2.04	0.47	-0.37	-1.04	
19 भार (बर्दन) का व्याज-आय से अनुपात	-15.08	-32.73	4.96	21.83	7.43	-3.96	-13.84	
20 परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	6.73	7.30	3.99	2.81	1.47	5.93	4.22	
21 आस्तियों पर लाभ	3.42	6.71	1.37	0.78	0.23	3.96	1.28	
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	5.17	6.18	21.63	12.93	2.50	31.37	12.29	
23 जमाशायियों की लागत	1.71	1.00	2.71	3.84	4.72	4.86	5.91	
24 उधार लागत	0.00	0.00	5.93	4.20	5.96	4.24	3.30	
25 निधि (फंड्स) की लागत	2.31	1.56	3.81	3.96	5.06	4.73	5.38	
26 अग्रिमों पर लाभ	9.2	8.63	10.11	11.26	8.83	8.15	10.94	
27 निवेशों पर लाभ	5.2	6.02	8.01	7.79	7.56	9.33	4.53	
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	6.88	7.07	6.30	7.30	3.78	3.42	5.56	
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	2.89	4.46	4.20	3.82	2.51	4.59	-0.85	
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	209.48	212.37	1011.88	1070.26	1865.72	1772.97	216.75	
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	8.8	10.74	11.36	7.66	4.8	78.29	2.59	
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	100.00	43.09	11.34	12.92	27.66	51.71	13.00	
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	93.32	42.27	7.33	7.24	27.18	50.65	12.18	
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	6.68	0.82	4.01	5.68	0.48	1.06	0.82	
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	0.00	9.25	0.12	0.85	0.63	0.00	0.77	

टिप्पणी : # व्याख्यात्मक टिप्पणियां देखें 1

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेख ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)

विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	एन्टवर्प डायमंड बैंक		बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया		बैंक ऑफ अमेरिका		बैंक ऑफ बहरीन एण्ड कुवैत	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1 नकदी-जमा अनुपात	44.41	48.09	19.26	0.00	7.33	10.49	5.47	8.96
2 ऋण-जमा अनुपात	696.96	597.80	5.95	0.00	107.29	82.38	46.91	70.90
3 निवेश-जमा अनुपात	292.54	214.33	120.61	0.00	69.4	68.67	29.9	31.17
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	989.51	812.13	126.56	0.00	176.69	151.05	76.82	102.07
5 जमाशायियों का कुल देयताओं से अनुपात	8.68	10.15	10.37	0.00	43.02	51.6	77.55	74.38
6 सावधि जमाशायियों का कुल जमाशायियों से अनुपात	18.16	13.01	47.5	0.00	36.12	35.3	78.49	77.06
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	99.74	99.81	0.00	0.00	22.44	33.28	22.47	17.87
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	0.26	0.19	0.00	0.00	2.03	2.17	42.18	32.28
9 प्रतिभूत (सिक्क्योर्ड) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	99.93	99.93	99.66	0.00	17.97	26.1	86.97	88.94
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	0.00	0.00	35.73	0.00	28.7	31.59	2.61	1.68
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	6.55	5.78	4.48	2.34	7.00	7.12	6.52	7.00
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	2.67	2.51	3.23	2.17	4.25	4.86	2.75	3.25
13 ब्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	1.13	1.09	3.49	12.28	3.79	4.82	1.01	1.73
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	0.91	0.89	2.34	4.90	2.28	2.32	2.34	2.43
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	46.00	46.69	23.36	21.51	55.67	53.93	40.34	40.73
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	8.78	10.00	15.21	20.78	25.20	27.31	15.45	16.03
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	5.48	6.05	6.85	7.21	11.74	10.48	12.55	11.35
18 भार (बर्दन) का कुल आस्तियों से अनुपात	-0.22	-0.20	-1.16	-7.38	-1.51	-2.5	1.33	0.70
19 भार (बर्दन) का ब्याज-आय से अनुपात	-3.33	-3.52	-25.76	-315.35	-21.62	-35.15	20.46	10.02
20 परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	2.89	2.72	4.39	9.55	5.76	7.36	1.41	2.55
21 आस्तियों पर लाभ	1.70	1.63	6.52	8.78	3.10	3.76	-1.9	4.08
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	7.48	6.13	6.65	9.09	11.64	14.57	-9.25	21.00
23 जमाशायियों की लागत	1.01	0.93	3.87	1.08	2.3	2.62	4.39	4.50
24 उधार लागत	5.11	4.25	4.07	1.15	9.58	7.63	11.32	4.59
25 निधि (फंड्स) की लागत	4.60	3.79	3.99	1.12	4.70	3.70	4.59	4.50
26 अग्रिमों पर लाभ	7.11	6.18	22.26	22.42	6.94	7.79	9.98	9.56
27 निवेशों पर लाभ	6.77	7.84	8.25	7.6	10.45	8.86	6.28	7.46
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	2.51	2.39	18.26	21.3	2.24	4.08	5.38	5.06
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	2.18	4.05	4.25	6.47	5.75	5.15	1.68	2.96
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	2071.57	2618.95	97.00	0.00	1920.89	2483.54	704.00	718
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	55.63	53.54	37.39	233.26	69.09	102.08	-11.00	20.00
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	46.48	37.09	141.24	235.82	13.33	12.14	22.00	21.61
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	33.28	36.75	139.98	235.82	11.75	10.93	20.75	20.54
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	13.2	0.34	1.26	0.00	1.58	1.21	1.25	1.07
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	1.51

स्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)
विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	बैंक ऑफ सिलोन		बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया		बैंक ऑफ टोकियो-मिट्सुबिशी यूएफजे		बारक्लेस बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1 नमकदी-जमा अनुपात	9.10	13.63	7.40	10.40	8.53	20.77	2.42	8.10
2 ऋण-जमा अनुपात	47.33	55.87	142.84	127.14	165.39	173.88	17.10	110.63
3 निवेश-जमा अनुपात	35.68	39.97	52.68	43.80	54.39	44.37	132.87	41.39
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	83.01	95.84	195.52	170.94	219.78	218.25	149.97	152.02
5 जमा राशियों का कुल देयताओं से अनुपात	52.19	45.85	47.18	53.26	39.95	37.91	32.34	53.39
6 सावधि जमा राशियों का कुल जमा राशियों से अनुपात	60.23	55.32	88.61	94.19	34.93	44.04	99.18	94.79
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	53.69	58.12	37.94	38.53	22.48	23.86	17.40	14.68
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	15.62	15.28	6.82	2.75	25.50	24.99	6.18	66.76
9 प्रतिभूत (सिक्के) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	95.32	98.87	64.20	54.46	19.62	25.19	6.75	10.85
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	0.00	0.00	8.97	5.62	18.25	0.00	59.70	22.56
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	5.98	6.85	6.35	6.19	5.91	7.23	5.50	7.77
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	3.64	4.94	1.93	1.69	3.70	4.62	2.66	3.74
13 ब्याज-उत्तर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	2.01	2.18	2.02	1.98	2.28	1.44	8.69	7.07
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	1.56	1.64	0.98	0.70	1.94	1.03	5.12	8.62
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	34.39	31.82	38.77	41.97	52.70	51.97	64.87	36.39
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	13.78	14.71	7.06	5.67	24.60	14.68	41.75	24.80
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	6.72	5.78	4.56	3.61	12.45	6.15	23.43	21.14
18 भार (बर्दन) का कुल आस्तियों से अनुपात	-0.45	-0.54	-1.03	-1.28	-0.35	-0.42	-3.56	1.55
19 भार (बर्दन) का ब्याज-आय से अनुपात	-7.54	-7.91	-16.28	-20.71	-5.84	-5.77	-64.73	19.96
20 परिचालन (ऑपरेंटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	4.09	5.48	2.96	2.97	4.05	5.04	6.22	2.19
21 आस्तियों पर लाभ	1.25	2.24	1.73	1.73	2.11	2.40	4.45	0.10
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	3.70	6.40	16.65	15.39	8.19	9.44	6.57	0.20
23 जमा राशियों की लागत	4.48	3.64	5.79	6.49	2.99	3.48	4.25	5.02
24 उधार लागत	0.59	5.01	4.01	3.15	1.51	2.09	6.64	13.59
25 निधि (फंड्स) की लागत	4.18	3.70	5.16	5.11	2.49	2.91	5.10	6.14
26 अग्रिमों पर लाभ	8.35	12.77	6.78	6.69	6.86	8.61	25.74	11.07
27 निवेशों पर लाभ	6.64	7.06	6.13	6.79	6.00	6.76	9.52	8.15
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	4.17	9.07	1.63	1.58	4.37	5.70	20.64	4.93
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	2.46	3.36	0.98	1.68	3.51	3.85	4.41	2.01
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	579.00	483.00	2311.12	3082.88	1780.52	2613.45	280.54	942.33
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	9.00	15.00	39.10	49.89	35.42	60.50	36.28	50.00
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	63.21	55.86	23.26	20.15	30.71	26.87	13.68	21.11
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	62.82	54.77	22.57	14.72	26.47	26.36	13.68	20.81
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	0.39	1.09	0.69	5.43	4.24	0.51	0.00	0.30
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	14.96	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

टिप्पणी : # व्याख्यात्मक टिप्पणियां देखें 1

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेख ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)

विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	बीएनपी परिबास		कैल्योन बैंक		चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक		सिटि बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1 नकदी-जमा अनुपात	9.16	12.36	6.71	12.79	8.45	31.28	7.94	10.16
2 ऋण-जमा अनुपात	111.62	116.55	129.50	159.70	112.67	139.84	86.76	83.20
3 निवेश-जमा अनुपात	53.37	83.14	122.34	128.72	40.00	44.56	42.3	40.00
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	164.99	199.69	251.85	288.42	152.67	184.40	129.06	123.2
5 जमाराशियों का कुल देयताओं से अनुपात	49.87	42.65	23.42	24.89	54.26	44.63	57.08	55.01
6 सावधि जमाराशियों का कुल जमाराशियों से अनुपात	70.64	52.82	77.01	75.19	51.83	80.41	44.16	50.63
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमो से अनुपात	29.66	20.08	27.18	33.31	31.32	36.30	26.76	30.32
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	61.92	47.42	30.75	23.86	32.76	27.89	75.21	72.02
9 प्रतिभूत (सिक्योरिटी) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	51.50	45.89	51.38	42.41	64.65	76.58	50.49	51.18
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	8.97	7.48	48.04	46.22	19.00	19.14	10.62	7.18
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	7.63	7.79	6.49	7.02	6.60	7.19	7.84	7.94
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	3.29	3.49	2.81	3.39	2.69	2.98	4.81	4.86
13 ब्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	3.45	4.30	5.85	5.85	0.72	0.81	2.41	3.26
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	3.26	2.98	3.05	2.74	2.33	2.46	3.31	2.90
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	50.96	54.22	59.75	63.65	34.80	29.84	30.32	29.90
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	21.84	22.17	27.09	27.39	12.99	11.00	15.83	14.51
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	14.98	13.35	14.77	13.56	11.07	9.16	9.81	7.75
18 भार (बर्दन) का कुल आस्तियों से अनुपात	-0.19	-1.32	-2.80	-3.11	1.61	1.64	0.91	-0.36
19 भार (बर्दन) का ब्याज-आय से अनुपात	-2.53	-16.93	-43.20	-44.26	24.34	22.85	11.56	-4.47
20 परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	3.48	4.81	5.61	6.50	1.08	1.34	3.9	5.22
21 आस्तियों पर लाभ	1.41	1.97	4.60	4.20	0.34	1.63	2.79	4.33
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	10.24	13.35	11.98	15.54	1.51	7.50	16.44	22.62
23 जमाराशियों की लागत	4.48	4.54	3.03	3.71	3.34	4.47	3.98	4.56
24 उधार लागत	7.76	8.00	6.87	6.33	9.28	7.64	3.51	3.20
25 निधि (फंड्स) की लागत	5.46	5.69	5.41	5.31	5.23	5.57	3.87	4.26
26 अग्रिमों पर लाभ	7.96	8.25	9.87	9.43	8.65	9.27	10.16	11.57
27 निवेशों पर लाभ	10.79	10.50	7.51	11.22	5.51	6.22	7.76	8.08
28 कॉस्ट ऑफ फन्ड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	2.51	2.56	4.45	4.12	3.42	3.70	6.30	7.31
29 कॉस्ट ऑफ फन्ड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	5.34	4.81	2.10	5.91	0.28	0.65	3.90	3.82
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	1353.00	1950.00	1629.00	2249.00	1042.00	845.00	1360.48	1763.78
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	19.00	36.00	82.00	97.00	3.00	13.00	17.33	37.73
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	10.76	11.79	15.10	9.70	22.14	22.72	11.06	12.00
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	7.38	8.07	11.50	7.80	21.57	22.07	10.12	11.24
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	3.38	3.72	3.60	1.90	0.57	0.65	0.94	0.76
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	1.02	1.23

स्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)
विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	डी. बी. एस. बैंक		डूश बैंक		हॉगकॉग एण्ड शांघहाय बैंकिंग कॉरपोरेशन		जेपी मोरगन चेस बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1 नकदी-जमा अनुपात	2.27	4.85	13.32	17.96	9.34	11.54	9.92	9.02
2 ऋण-जमा अनुपात	32.06	46.40	70.86	65.14	66.45	70.26	47.96	31.97
3 निवेश-जमा अनुपात	28.11	88.55	88.90	73.95	40.58	45.26	262.02	185.40
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	60.17	134.95	159.76	139.09	107.03	115.52	309.98	217.38
5 जमाशायियों का कुल देयताओं से अनुपात	63.19	56.08	39.39	55.66	63.40	56.14	26.72	40.90
6 सावधि जमाशायियों का कुल जमाशायियों से अनुपात	97.89	96.87	25.63	30.55	56.47	53.88	47.34	57.98
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	28.90	46.91	33.00	21.32	22.01	28.24	31.48	39.14
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	31.39	25.34	27.95	35.17	53.63	46.69	98.38	96.80
9 प्रतिभूत (सिक्के) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	63.00	48.00	24.51	30.28	56.13	52.90	56.86	22.72
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	37.13	38.56	31.16	8.15	27.19	24.45	20.19	38.09
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	8.25	8.37	6.53	6.81	7.59	7.61	6.13	6.30
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	3.00	3.18	3.39	4.28	4.97	4.53	3.33	3.46
13 ब्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	1.86	-0.44	4.39	4.79	2.62	3.24	3.77	5.28
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	1.60	1.16	5.00	4.99	3.43	3.28	1.55	1.79
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	62.02	62.90	51.19	47.09	38.94	41.53	55.96	60.88
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	14.52	11.52	31.45	31.25	22.05	21.41	19.95	23.51
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	9.84	9.23	23.44	20.26	13.07	12.55	8.75	9.39
18 भार (बर्दन) का कुल आस्तियों से अनुपात	-0.26	1.60	0.61	0.20	0.81	0.04	-2.22	-3.50
19 भार (बर्दन) का ब्याज-आय से अनुपात	-3.13	19.18	9.34	2.97	10.61	0.57	-36.28	-55.57
20 परिचालन (ऑपरेंटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	3.26	1.57	2.78	4.08	4.16	4.49	5.56	6.96
21 आस्तियों पर लाभ	1.60	0.86	1.23	1.56	1.82	1.82	1.71	3.07
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	8.99	5.86	13.42	12.39	16.38	16.31	12.16	15.19
23 जमाशायियों की लागत	3.84	2.73	1.88	2.17	3.53	4.49	2.86	4.06
24 उधार लागत	24.38	19.80	6.03	5.14	3.20	3.78	1.12	1.18
25 निधि (फंड्स) की लागत	7.52	6.74	4.00	3.25	3.49	4.39	1.97	2.52
26 अग्रिमों पर लाभ	8.89	9.18	9.46	10.29	10.60	12.26	5.82	11.16
27 निवेशों पर लाभ	14.06	9.26	5.95	6.82	9.18	8.88	6.48	6.22
28 कॉस्ट ऑफ फन्ड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	1.37	2.45	5.45	7.05	7.11	7.87	3.85	8.64
29 कॉस्ट ऑफ फन्ड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	6.54	2.52	1.95	3.58	5.69	4.49	4.52	3.70
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	1003.02	1416.58	1143.53	1616.74	979.68	1012.34	1121.88	1438.95
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	39.84	28.27	20.98	27.54	14.32	16.69	82.15	153.77
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	29.24	18.15	10.62	13.58	11.06	10.59	16.14	17.72
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	22.84	14.98	9.73	13.09	10.01	9.72	15.99	17.60
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	6.40	3.17	0.89	0.49	1.05	0.87	0.15	0.12
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	0.00	0.05	0.01	0.22	0.43	0.58	2.17	2.12

टिप्पणी : # व्याख्यात्मक टिप्पणियां देखें 1

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)

विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	कुंग थाय बैंक		माशरेक बैंक		मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक		ओमान इंटरनेशनल बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
1 नकदी-जमा अनुपात	5.93	7.80	7.88	15.22	9.83	9.29	6.20	8.73
2 ऋण-जमा अनुपात	21.24	11.05	93.08	130.29	528.39	191.58	0.91	0.83
3 निवेश-जमा अनुपात	44.57	27.88	79.44	83.37	131.73	55.23	53.82	52.71
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	65.80	38.92	172.51	213.66	660.12	246.81	54.74	53.54
5 जमा राशियों का कुल देयताओं से अनुपात	52.60	63.27	31.89	26.75	13.01	36.48	49.10	45.81
6 सावधि जमा राशियों का कुल जमा राशियों से अनुपात	51.16	57.38	51.66	10.29	41.25	52.56	77.02	73.02
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	16.45	64.41	99.58	99.77	30.99	27.00	0.00	0.00
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	12.10	0.00	0.42	0.23	25.69	24.61	94.48	94.41
9 प्रतिभूत (सिक्योरिटी) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	96.61	100.00	99.99	100.00	32.67	39.69	100.00	100.00
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	36.79	6.98	17.84	0.00	20.40	21.00	0.00	0.00
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	6.94	7.02	7.69	6.97	6.02	6.93	3.97	3.74
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	5.69	4.85	7.00	6.75	3.97	3.80	0.86	0.65
13 ब्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	0.48	0.77	7.95	8.50	1.83	1.82	0.23	0.17
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	3.10	2.33	5.69	5.01	2.32	2.37	1.41	1.51
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	25.00	21.36	39.99	44.06	39.93	37.90	29.26	28.42
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	17.78	11.07	35.68	42.24	21.19	16.35	9.13	9.31
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	10.43	6.40	14.56	14.28	11.82	10.28	9.81	10.95
18 भार (बर्डन) का कुल आस्तियों से अनुपात	2.61	1.56	-2.26	-3.49	0.50	0.56	1.18	1.34
19 भार (बर्डन) का ब्याज-आय से अनुपात	37.64	22.26	-29.34	-50.04	8.26	8.02	29.61	35.73
20 परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	3.07	3.29	9.26	10.24	3.47	3.24	-0.31	-0.69
21 आस्तियों पर लाभ	1.72	1.90	8.19	8.82	1.30	1.96	-0.90	3.15
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	3.34	4.50	15.29	11.77	3.23	5.25	-1.51	4.70
23 जमा राशियों की लागत	2.61	3.69	1.10	0.62	4.48	3.38	5.55	5.93
24 उधार लागत	0.00	0.00	1.80	0.00	4.23	5.69	6.02	3.56
25 निधि (फंड्स) की लागत	2.62	3.69	1.11	0.66	4.32	4.71	5.61	5.60
26 अग्रिमों पर लाभ	9.25	9.10	7.25	3.86	7.72	8.08	34.66	11.33
27 निवेशों पर लाभ	6.04	6.97	6.42	7.56	5.09	6.67	6.45	6.52
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	6.63	5.41	6.14	3.20	3.40	3.37	29.05	5.73
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	3.42	3.28	5.31	6.90	0.77	1.97	0.84	0.92
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	539.16	812.81	440.07	225.63	918.87	1589.56	528.62	484.99
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	13.04	18.04	64.70	53.61	14.60	25.03	-6.14	19.91
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	121.73	110.11	97.06	52.81	34.40	27.80	10.99	23.09
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	114.22	109.03	94.73	51.70	34.16	27.55	10.94	22.47
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	7.51	1.08	2.33	1.11	0.24	0.25	0.05	0.62
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

स्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)
विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	शिनहॉन बैंक #		सोसायटी जनरल		सोनाली बैंक		स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)
1 नकदी-जमा अनुपात	6.99	12.07	4.28	8.56	12.24	10.24	5.86	12.53
2 ऋण-जमा अनुपात	65.60	93.44	34.13	28.22	11.86	32.58	88.09	90.25
3 निवेश-जमा अनुपात	39.60	35.01	129.17	184.65	19.14	22.79	34.83	34.60
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	105.21	128.45	163.29	212.87	31.01	55.38	122.92	124.85
5 जमाशायियों का कुल देयताओं से अनुपात	41.87	47.47	39.38	43.32	70.32	64.98	58.03	50.32
6 सावधि जमाशायियों का कुल जमाशायियों से अनुपात	58.15	58.27	96.10	91.53	17.05	18.58	57.32	52.54
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	23.40	35.99	16.53	37.35	27.21	65.11	28.02	28.41
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	42.00	52.91	43.11	53.63	0.00	0.00	40.65	39.00
9 प्रतिभूत (सिक्के) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	73.28	52.63	71.91	82.77	74.44	35.87	60.85	55.34
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	16.53	0.00	66.92	40.05	20.07	20.21	18.76	9.47
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	5.66	8.04	7.23	7.36	3.93	3.60	7.72	7.37
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	4.28	5.59	2.23	1.85	1.89	1.99	4.57	4.15
13 ब्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	0.64	0.93	1.69	1.41	10.10	9.80	2.57	3.40
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	1.98	2.21	2.08	2.02	8.68	8.73	2.68	3.10
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	31.20	26.70	59.41	54.67	58.63	56.95	42.06	38.70
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	18.42	12.67	17.44	14.69	47.48	48.11	19.32	18.98
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	9.82	6.59	13.83	12.62	36.28	37.13	10.95	11.13
18 भार (बर्दन) का कुल आस्तियों से अनुपात	1.34	1.29	0.38	0.61	-1.42	-1.07	0.11	-0.30
19 भार (बर्दन) का ब्याज-आय से अनुपात	23.70	16.02	5.31	8.33	-36.07	-29.62	1.39	-4.12
20 परिचालन (ऑपरेंटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	2.94	4.30	1.85	1.24	3.31	3.06	4.46	4.46
21 आस्तियों पर लाभ	1.60	1.86	0.96	1.33	1.52	1.60	3.06	3.13
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	3.53	5.88	6.44	11.19	12.40	11.29	26.33	24.08
23 जमाशायियों की लागत	1.98	5.13	5.05	6.67	1.72	1.41	3.58	4.63
24 उधार लागत	0.97	0.86	7.00	6.09	0.00	0.00	6.76	6.47
25 निधि (फंड्स) की लागत	1.70	4.15	5.97	6.36	1.72	1.41	4.17	4.92
26 अग्रिमों पर लाभ	7.11	7.34	8.72	10.19	11.35	9.66	9.58	10.90
27 निवेशों पर लाभ	6.36	7.40	9.13	6.21	7.15	9.91	11.09	10.01
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	5.42	3.19	2.75	3.83	9.63	8.25	5.41	5.98
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	4.66	3.25	3.16	-0.15	5.43	8.49	6.92	5.09
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	1433.00	1709.81	1316.00	1459.10	71.45	74.02	924.20	826.66
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	25.00	34.59	19.20	33.90	1.38	1.38	19.62	20.22
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	89.26	48.66	31.82	26.62	71.42	41.25	10.44	10.59
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	88.97	48.10	31.66	26.49	71.21	40.94	8.93	8.21
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	0.29	0.56	0.16	0.13	0.21	0.31	1.51	2.38
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	1.04

टिप्पणी : # व्याख्यात्मक टिप्पणियां देखें 1

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेख ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)
विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति	
	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस	
	2007 (43)	2008 (46)
1 नकदी-जमा अनुपात	7.95	9.86
2 ऋण-जमा अनुपात	63.40	86.31
3 निवेश-जमा अनुपात	59.68	36.28
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	123.09	122.59
5 जमा राशियों का कुल देयताओं से अनुपात	41.19	54.50
6 सावधि जमा राशियों का कुल जमा राशियों से अनुपात	84.71	87.51
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	31.81	23.58
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	69.38	78.56
9 प्रतिभूत (सिक्योरिटी) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	77.33	79.73
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	13.36	1.24
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	7.58	7.64
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	2.44	2.33
13 ब्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	1.32	1.18
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	1.33	1.34
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	29.46	29.85
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	6.07	6.01
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	4.41	4.53
18 भार (बर्डन) का कुल आस्तियों से अनुपात	0.01	0.16
19 भार (बर्डन) का ब्याज-आय से अनुपात	0.16	2.11
20 परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	2.43	2.17
21 आस्तियों पर लाभ	1.53	1.12
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	5.49	3.26
23 जमा राशियों की लागत	6.04	7.97
24 उधार लागत	12.02	8.85
25 निधि (फंड्स) की लागत	7.63	8.21
26 अग्रिमों पर लाभ	10.49	11.15
27 निवेशों पर लाभ	6.98	7.86
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	2.86	2.94
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	-0.65	-0.35
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	1236.00	1491.00
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	28.00	17.00
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	38.99	41.13
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	34.74	37.85
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	4.25	3.28
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।